

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Com. (Part II) EXAMINATION, 2022

(Old Course)

Group-C

Paper Sixth

PUBLIC FINANCE

Paper Code

1	7	8	N
---	---	---	---

Questions Booklet
Series

C

Time : 2:00 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. All questions are compulsory. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. मेरिट वस्तुओं की अवधारणा को 1959 में किसने विकसित किया ?
 - (A) आर. ए. मैक्ग्रेव
 - (B) जे. एम. कीन्स
 - (C) बेस्टेबल
 - (D) डेविड रिकार्डो
2. 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे :
 - (A) डॉ. विजय केलकर
 - (B) श्री आई. जी. पटेल
 - (C) ए. एस. खुसरो
 - (D) डॉ. मनमोहन सिंह
3. सरकार अपनी कर से आय को अपनी इच्छा के पैमाने के अनुसार समायोजित कर सकती है। इसे कहते हैं :
 - (A) लोक वित्त
 - (B) निजी वित्त
 - (C) बैंकिंग वित्त
 - (D) आर्थिक वित्त
4. 'लोक वित्त के सिद्धान्त' प्रचलित पुस्तक प्रतिपादित की गई है :
 - (A) रिचर्ड मसग्रेव द्वारा
 - (B) जोसेफ शुम्पीटर द्वारा
 - (C) डाल्टन द्वारा
 - (D) एडम स्मिथ द्वारा
1. Who developed the concept of merit goods in 1959 ?
 - (A) R. A. MacGrave
 - (B) J. M. Keynes
 - (C) Bastable
 - (D) David Ricardo
2. The chairman of 13th Finance Commission was :
 - (A) Dr. Vijay Kelkar
 - (B) Shri I. G. Patel
 - (C) A. S. Khusrau
 - (D) Dr. Man Mohan Singh
3. Government can adjust its tax income to its desired scale of expenditure. Its called :
 - (A) Public finance
 - (B) Private finance
 - (C) Banking finance
 - (D) Economic finance
4. 'The Theory of Public Finance' the famous book propounded by :
 - (A) Richard Musgrave
 - (B) Joseph Schumpeter
 - (C) Dalton
 - (D) Adam Smith

5. लोक वित्त अन्य विज्ञान के साथ है।

- (A) कला
- (B) राजनीति विज्ञान
- (C) प्रामाणिक विज्ञान
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

6. “बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान तथा बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान साथ-साथ प्रदान करता है।” किसने कहा ?

- (A) पी. एफ. टेलर
- (B) फिंडले शिराज
- (C) डाल्टन
- (D) गैस्टन गेज

7. बचत का बजट किसको कहते हैं ?

- (A) सरकार की आय = सरकार का व्यय
- (B) सरकार की आय > सरकार का व्यय
- (C) सरकार की आय < सरकार का व्यय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. Public finance is together with other Science.

- (A) Arts
- (B) Political Science
- (C) Normative Science
- (D) None of the above

6. “Budget is the master financial plan of the government. It brings together estimates of anticipated revenue and proposed expenditures for the budget year.” Who said ?

- (A) P. F. Taylor
- (B) Findley Shirras
- (C) Dalton
- (D) Gaston Gaze

7. Which is called as surplus budget ?

- (A) Govt. Income = Government Expenditure
- (B) Government Income > Government Expenditure
- (C) Government Income < Government Expenditure
- (D) None of the above

- | | |
|--|---|
| <p>8. सामान्यतः घाटे की वित्त व्यवस्था से होता है :</p> <p>(A) कीमतों में कमी</p> <p>(B) कीमतों में वृद्धि</p> <p>(C) कीमतों पर नियन्त्रण</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>8. Generally deficit financing leads to :</p> <p>(A) Fall in prices</p> <p>(B) Rise in prices</p> <p>(C) Control on prices</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>9. “केवल भूमि पर ही कर लगाया जाना चाहिये।” यह विचार दिया गया है :</p> <p>(A) करापात के आधुनिक सिद्धान्त में</p> <p>(B) करापात के विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त में</p> <p>(C) करापात के संकेन्द्रण सिद्धान्त में</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>9. “Tax should be levied only on land.” This view is given in :</p> <p>(A) Modern theory of tax incidence</p> <p>(B) Diffusion theory of tax incidence</p> <p>(C) Concentration theory of tax incidence</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>10. मसग्रेव के विचार में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त है :</p> <p>(A) व्यक्तिगत अधिमान का मूल्यांकन</p> <p>(B) आर्थिक कल्याण में वृद्धि और आय का समान वितरण</p> <p>(C) उपयोगिता और उत्पादन स्तर</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>10. The view of Musgrave regarding the principle of maximum social advantage is :</p> <p>(A) Valuation of individual preference</p> <p>(B) Economic welfare increase and equal distribution of wealth</p> <p>(C) Production and utility level</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>11. ने इसे अधिकतम सकल कल्याण का सिद्धान्त कहा है।</p> <p>(A) प्रोफेसर पीगू</p> <p>(B) प्रोफेसर डाल्टन</p> <p>(C) श्रीमती हिक्स</p> <p>(D) मसग्रेव</p> | <p>11. called it as principle of maximum aggregate welfare.</p> <p>(A) Prof. Pigou</p> <p>(B) Prof. Dalton</p> <p>(C) Mrs. Hicks</p> <p>(D) Musgrave</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>12. जब सीमान्त त्याग, सीमान्त लाभ के बराबर हो जाता है, तो इसे हम जानते हैं :</p> <p>(A) राज्य लोक वित्त की अनुकूलतम गतिविधि</p> <p>(B) सीमान्त त्याग की सीमा</p> <p>(C) सीमान्त लाभ की सीमा</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>12. When marginal sacrifice is equal to the marginal benefit, it is known as :</p> <p>(A) Optimum limit of states public finance activity</p> <p>(B) Marginal sacrifice limit</p> <p>(C) Marginal benefit limit</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>13. लोक वित्त की विषय-वस्तु के अन्तर्गत शामिल है :</p> <p>(A) सार्वजनिक व्यय</p> <p>(B) सार्वजनिक आगम</p> <p>(C) सार्वजनिक ऋण</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>13. Subject-matter of public finance includes :</p> <p>(A) Public expenditure</p> <p>(B) Public revenue</p> <p>(C) Public debt</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>14. श्रीमती हिक्स के विचार में कौन-से दो बिन्दुओं को लोक वित्त की नीति निर्धारण के पहले ध्यान में रखना चाहिये ?</p> <p>(A) उत्पादन और उपयोगिता स्तर</p> <p>(B) आर्थिक कल्याण</p> <p>(C) सीमान्त उपयोगिता और बजट</p> <p>(D) स्थायित्व और पूर्ण रोजगार</p> | <p>14. Which two points are to be kept into mind before deciding the policy of public finance according to Mrs. Hicks ?</p> <p>(A) Production and utility level</p> <p>(B) Economic welfare</p> <p>(C) Marginal utility and budget</p> <p>(D) Stability and full employment</p> |
| <p>15. सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोत हैं :</p> <p>(A) कर आगम</p> <p>(B) गैर-कर आगम</p> <p>(C) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> <p>(D) दोनों (A) एवं (B)</p> | <p>15. The various sources of public revenue are :</p> <p>(A) Tax revenue</p> <p>(B) Non-tax revenue</p> <p>(C) None of the above</p> <p>(D) Both (A) and (B)</p> |

16. निम्नलिखित में से कौन-सी करयोग्य आय नहीं है ?
- (A) आयकर
(B) सम्पत्ति कर
(C) विक्रय कर
(D) उपहार एवं अनुदान से आय
17. “करापात में उत्पादकता होनी चाहिये।” यह कथन किसका है ?
- (A) बेस्टेबल
(B) एडम स्मिथ
(C) सेलिगमैन
(D) जे. के. मेहता
18. आय में वृद्धि के साथ अतिरिक्त आय इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटेगी।
- (A) सीमान्त
(B) औसत
(C) समान
(D) कुल
16. Which one of the following is non-tax revenue ?
- (A) Income tax
(B) Wealth tax
(C) Sales tax
(D) Income from gift and grant
17. Who said that “Taxation should have productivity” ?
- (A) Bastable
(B) Adam Smith
(C) Seligman
(D) J. K. Mehta
18. With the increase of income the utility of additional unit of income decreases.
- (A) Marginal
(B) Average
(C) Equal
(D) Total

19. “कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जो वास्तविक कर पर न्यूनतम प्रत्यक्ष प्रभाव डाले।” यह कथन किसके द्वारा दिया गया है ?

- (A) डाल्टन
- (B) जे. के. मेहता
- (C) मसग्रेव
- (D) प्रो. पीगू

20. कर व्यवस्था आधारित होनी चाहिये :

- (A) समानता के सिद्धान्त पर
- (B) प्रबन्ध के सिद्धान्त पर
- (C) असमानता के सिद्धान्त पर
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

21. कौन-सा तत्व कर क्षमता को निर्धारित करता है ?

- (A) आय एवं सम्पत्ति का वितरण
- (B) आय में स्थिरता
- (C) राष्ट्रीय आय का आकार
- (D) उपर्युक्त सभी

19. “Tax system should have minimum real direct effect on taxation.” This statement is given by :

- (A) Dalton
- (B) J. K. Mehta
- (C) Musgrave
- (D) Prof. Pigou

20. The system of taxation should be based on :

- (A) Principle of equality
- (B) Principle of management
- (C) Principle of inequality
- (D) None of the above

21. Which factor does determine taxable capacity ?

- (A) Distribution of income and wealth
- (B) Stability of income
- (C) Size of national income
- (D) All of the above

22. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है ?

- (A) शून्य आधारित बजट उद्देश्यों द्वारा प्रबन्ध में सहायता करता है।
- (B) शून्य आधारित बजट में पर्याप्त लोच है।
- (C) शून्य आधारित बजट, बजट की पुरानी तकनीक है।
- (D) शून्य आधारित बजट व्यवस्था एकपक्षीय है।

23. लोक सभा में बजट प्रस्तुत करते समय कौन वक्तव्य देता है ?

- (A) प्रधानमंत्री
- (B) वित्त मंत्री
- (C) लोक सभा स्पीकर
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

24. भारत के वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बताइये :

- (A) निर्मला सीतारमण
- (B) पी. चिदम्बरम्
- (C) यशवन्त सिन्हा
- (D) जसवन्त सिंह

25. भारतीय कर व्यवस्था है :

- (A) आनुपातिक
- (B) अग्रगामी
- (C) प्रतिगामी
- (D) अधोगामी

22. Which one of the following statements is false ?

- (A) Zero based budget helps in management by objectives.
- (B) Zero based budget has sufficient elasticity.
- (C) Zero based budgeting is old technique of budgeting.
- (D) The system of zero based budget is ex-parte.

23. Who makes a speech in the Lok Sabha at the time of presentation of the budget ?

- (A) Prime Minister
- (B) Finance Minister
- (C) Speaker of Lok Sabha
- (D) None of the above

24. Name the present Finance Minister of India :

- (A) Nirmala Sitharaman
- (B) P. Chidamberam
- (C) Yashwant Sinha
- (D) Jaswant Singh

25. The Indian tax system is :

- (A) Proportional
- (B) Progressive
- (C) Regressive
- (D) Degressive

26. सार्वजनिक स्तर पर सबसे पहले शून्य आधारित बजट शुरू हुआ :
- (A) यू. के. में
(B) यू. एस. ए. में
(C) फ्रांस में
(D) स्वीडन में
26. In public zero based budgeting was first introduced in :
- (A) U. K.
(B) U. S. A.
(C) France
(D) Sweden
27. आनुपातिक कर प्रणाली में कर की दर रहेगी :
- (A) स्थिर
(B) वृद्धिशील
(C) घटती हुई
(D) शून्य
27. In proportional tax system, the rate of tax remains :
- (A) constant
(B) increasing
(C) decreasing
(D) zero
28. कर भार का आशय :
- (A) प्रत्यक्ष मुद्रा भार
(B) अप्रत्यक्ष मुद्रा भार
(C) वास्तविक कर भार
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
28. Incidence of tax means :
- (A) Direct money burden
(B) Indirect money burden
(C) Actual tax burden
(D) None of the above
29. कर विवर्तन क्या है ?
- (A) कर भार को स्वयं वहन करना
(B) कर भार को दूसरे पर विवर्त करना
(C) कर भार का कुछ भाग स्वयं वहन करना और शेष दूसरे पर विवर्त करना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
29. What is the tax shifting ?
- (A) To bear the tax burden on self
(B) To shift the tax burden on others
(C) To bear some part of the tax on self and shift the rest on others
(D) None of the above

30. भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन-सा है ?
- (A) प्रत्यक्ष कर
(B) पूँजी कर
(C) सहायता अनुदान
(D) अप्रत्यक्ष कर
31. वित्त आयोग की भूमिका है :
- (A) नये करों को प्रस्तावित करना
(B) पुराने करों को समाप्त करना
(C) व्यवस्था पर पुनर्विचार एवं परिवर्तित करना
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
32. युद्ध एवं भूकंप के लिये बजट घाटे को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा लिये गये ऋण हैं :
- (A) उत्पादक ऋण
(B) अनुत्पादक ऋण
(C) ऐच्छिक ऋण
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
33. जी. एस. टी. के शुभारम्भ से केन्द्र एवं राज्य सरकार के कितने अप्रत्यक्ष कर समाप्त हो गये हैं ?
- (A) 15
(B) 20
(C) 12
(D) 17
30. Which of the following is the main source of revenue for Government of India ?
- (A) Direct tax
(B) Capital levy
(C) Grant in aid
(D) Indirect tax
31. The Finance Commission role is to :
- (A) Propose new taxes
(B) Abolish old taxes
(C) Review and modify arrangement
(D) None of the above
32. Loan taken by the Government for purpose of war and earthquakes for covering budget deficit are :
- (A) Productive debt
(B) Unproductive debt
(C) Voluntary debt
(D) None of the above
33. With the launch of GST how many indirect taxes of Central and States have been eliminated ?
- (A) 15
(B) 20
(C) 12
(D) 17

34. निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक ऋण प्रबन्ध का उद्देश्य नहीं है ?
- (A) कम दर पर ऋण
(B) दीर्घकाल में पुनर्भुगतान
(C) आर्थिक गतिविधि के स्तर में स्थिरता
(D) आर्थिक विकास
35. प्रत्यक्ष कर की प्रकृति है।
- (A) अग्रगामी
(B) समानता
(C) प्रतिगामी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
36. सरकार द्वारा लगाये गये करों का उद्देश्य है :
- (A) राज्य से आगम में वृद्धि करना
(B) आर्थिक स्थिरता को बनाये रखना
(C) आय के वितरण में असमानता को दूर करना
(D) उपर्युक्त सभी
37. विदेशी ऋण अधिग्रहीत होते हैं :
- (A) असीमित मात्रा में
(B) सीमित मात्रा में
(C) प्रतिबन्धित मात्रा में
(D) उपर्युक्त सभी
34. Which of the following is not an objective of public debt management ?
- (A) Loan at low cost
(B) Repayment over a long period
(C) Stabilisation of the level of economic activity
(D) Economic growth
35. Direct tax are in nature.
- (A) Progressive
(B) Equitable
(C) Regressive
(D) None of the above
36. The objective of taxation by the Government is :
- (A) Raising revenue from the state
(B) To maintain economic stability
(C) To remove disparity in the distribution of income
(D) All of the above
37. Foreign debts are acquired in :
- (A) Unlimited quantity
(B) Limited quantity
(C) Restricted quantity
(D) All of the above

38. संघीय वित्त व्यवहार करता है :
- (A) राज्य वित्त में
(B) रेलवे के वित्त में
(C) स्थानीय निकायों में
(D) केन्द्र-राज्य के वित्तीय सम्बन्धों में
39. जब व्यय कुल कर आगम से अधिक हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं :
- (A) आधिक्य बजट
(B) सन्तुलित बजट
(C) घाटे का बजट
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
40. ऋण को पुनः भुगतान करने को कहा जाता है।
- (A) परित्याग करना
(B) पूँजी कर
(C) ऋण शोधन निधि
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
41. संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के लिए आय के कितने साधन संरक्षित किए गये हैं ?
- (A) 10
(B) 15
(C) 11
(D) 12
38. Federal finance deals with :
- (A) State finance
(B) Finance of railway
(C) Local bodies
(D) Center-state financial relation
39. When expenditure exceeds from total tax revenue, it is called :
- (A) Surplus budget
(B) Balanced budget
(C) Deficit budget
(D) None of the above
40. refers to refusal to repay the debt.
- (A) Repudiation
(B) Capital levy
(C) Sinking fund
(D) None of the above
41. According to Constitution how many means of income have been reserved for the Central Govt. ?
- (A) 10
(B) 15
(C) 11
(D) 12

42. बजटरी नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य है :
- (A) फर्म के लक्ष्य को परिभाषित करना
(B) विभिन्न विभागों में समन्वय करना
(C) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाना
(D) उपर्युक्त सभी
43. भारत में जी. एस. टी. दुहरा नमूना है :
- (A) यू. के. का
(B) कनाडा का
(C) यू. एस. ए. का
(D) जापान का
44. भारत में जी. एस. टी. लागू हुआ है :
- (A) 1 जनवरी, 2017 से
(B) 1 अप्रैल, 2017 से
(C) 1 मार्च, 2017 से
(D) 1 जुलाई, 2017 से
45. निम्नलिखित में से कौन-सा सार्वजनिक ऋण का आन्तरिक साधन नहीं है ?
- (A) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान
(B) देश के लोगों से ऋण लेना
(C) व्यापारिक बैंक
(D) गैर-बैंकिंग संस्थान
46. प्रथम देश है जिसने सर्वप्रथम जी. एस. टी. को लागू किया।
- (A) यू. एस. ए.
(B) यू. के.
(C) कनाडा
(D) फ्रांस
42. The main objective of budgetary control is :
- (A) To define the goal of the firm
(B) To coordinate different departments
(C) To plan to achieve its goals
(D) All of the above
43. In India the G. S. T. is dual model of :
- (A) U. K.
(B) Canada
(C) U. S. A.
(D) Japan
44. GST was implemented in India from :
- (A) 1st January, 2017
(B) 1st April, 2017
(C) 1st March, 2017
(D) 1st July, 2017
45. Out of the following which is not the source of public debt from internal source ?
- (A) International financial institution
(B) Borrowing from countrymen
(C) Commercial Bank
(D) Non-banking institution
46. is the first country to implement G. S. T.
- (A) U. S. A.
(B) U. K.
(C) Canada
(D) France

47. सरकार द्वारा प्राप्त 'फीस' का रूप है।
- (A) करारोपण आय
(B) गैर-कर आय
(C) अनार्जित आय
(D) गैर-कर एवं अनार्जित आय दोनों
47. 'Fees' received by Government is the form of income :
- (A) Taxation income
(B) Non-tax income
(C) Unearned income
(D) Both non-taxable and unearned income
48. ऐसे ऋण जो ब्याज सहित एक निश्चित अवधि के पश्चात् देय होते हैं, उन्हें कहते हैं :
- (A) अल्पकालिक ऋण
(B) शोधनीय ऋण
(C) गैर-शोधनीय ऋण
(D) ऐच्छिक ऋण
48. The loans which are redeemable with interest after fixed time is known as :
- (A) Short-term loan
(B) Redeemable loan
(C) Non-refundable loan
(D) Voluntary loan
49. वह नीति जिसके आधार पर एक सरकार द्वारा करारोपण एवं व्यय सम्बन्धी निर्णय लिये जाते हैं, कहलाती है :
- (A) निवेश नीति
(B) मौद्रिक नीति
(C) राजस्व नीति (राजकोषीय नीति)
(D) बजट नीति
49. The policy on the basis of which a Government takes decisions regarding taxation and expenditure is called :
- (A) Investment policy
(B) Monetary policy
(C) Fiscal policy
(D) Budget policy
50. संघीय वित्त का सिद्धान्त नहीं है :
- (A) एकरूपता
(B) सरलता
(C) स्वतन्त्रता
(D) पर्याप्तता
50. Is not a principle of federal finance :
- (A) Uniformity
(B) Simplicity
(C) Independence
(D) Adequacy

51. द्वितीय वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी :
- (A) सितम्बर 1957 में
- (B) दिसम्बर 1962 में
- (C) अगस्त 1965 में
- (D) नवम्बर 1973 में
52. ग्यारहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे :
- (A) ए. एम. खुसरो
- (B) आर. एम. शुक्ला
- (C) पी. सी. जोशी
- (D) आर. एम. लाल
53. प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1952 में किसकी अध्यक्षता में हुई ?
- (A) सर के. सी. नियोगी
- (B) श्री के. संथानम
- (C) श्री ए. के. चन्द्रा
- (D) श्री महावीर त्यागी
51. The Second Finance Commission submitted its report in :
- (A) September 1957
- (B) December 1962
- (C) August 1965
- (D) November 1973
52. The chairman of eleventh Finance Commission was :
- (A) A. M. Khusrau
- (B) R. M. Shukla
- (C) P. C. Joshi
- (D) R. M. Lal
53. The First Finance Commission was established in 1952 under the chairmanship of :
- (A) Sir K. C. Niyogi
- (B) Shri K. Santhanam
- (C) Shri A. K. Chandra
- (D) Shri Mahavir Tyagi

54. भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किस धारा में उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी की व्यवस्था दी गयी थी ?
- (A) 141(1)
(B) 175(1)
(C) 275(1)
(D) 269
55. ग्यारहवें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट पेश की गयी थी :
- (A) 7 जुलाई, 2000 को
(B) 15 अगस्त, 1999 को
(C) 8 जुलाई, 2001 को
(D) 15 सितम्बर, 2001 को
56. संघीय वित्त के सिद्धान्त को किसने प्रतिपादित किया था ?
- (A) प्रोफेसर अदारकर
(B) रॉबर्ट गैरन
(C) जेम्स ए. मैक्सवेल
(D) लॉर्ड मायो
54. The sharing of excise duty was provided in which Section of Government of India Act, 1935 ?
- (A) 141(1)
(B) 175(1)
(C) 275(1)
(D) 269
55. The main report of eleventh Finance Commission was submitted on :
- (A) 7 July, 2000
(B) 15 August, 1999
(C) 8 July, 2001
(D) 15 September, 2001
56. Who has given principle of Federal Finance ?
- (A) Prof. Adarkar
(B) Robert Garren
(C) James A. Maxwell
(D) Lord Mayo

57. संघीय, प्रान्तीय और समवर्ती सूची भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किस अनुसूची में उपलब्ध है ?
- (A) VIIवीं अनुसूची
(B) Vवीं अनुसूची
(C) VIIIवीं अनुसूची
(D) प्रथम अनुसूची
58. ओटो-निमियर की रिपोर्ट किस वर्ष में आयी ?
- (A) 1936
(B) 1947
(C) 1949
(D) 1945
59. सम्पत्ति के पूँजीगत मूल्य पर कर आगम का कौन-सा स्रोत है ?
- (A) केन्द्रीय स्रोत
(B) राज्य स्रोत
(C) दोनों (A) एवं (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
57. The federal, provincial and concurrent list are provided under which Schedule of Government of India Act, 1935 ?
- (A) VIIth Schedule
(B) Vth Schedule
(C) VIIIth Schedule
(D) Ist Schedule
58. OTTO-NIEMEYER report came in the year :
- (A) 1936
(B) 1947
(C) 1949
(D) 1945
59. Taxes on capital value of assets are which source of revenue ?
- (A) Central source
(B) State source
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above

60. कृषि योग्य भूमि पर राज्य शुल्क आगम के किस स्रोत में आता है ?
- (A) राज्य स्रोत
(B) केन्द्रीय स्रोत
(C) दोनों (A) एवं (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
60. State Duty on Agricultural Land comes in which source of revenue ?
- (A) State source
(B) Central source
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
61. वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों सरकार को उपलब्ध कराते हैं :
- (A) आगम
(B) बचत
(C) अनुमोदन
(D) ऋण
61. Finance Commission and Planning Commission both provide to the Government :
- (A) Revenue
(B) Savings
(C) Recommendations
(D) Loans
62. व्यापार संतुलन अनुकूल बन जाता है जब ऋण :
- (A) दिया जाता है
(B) लिया जाता है
(C) भुगतान किया जाता है
(D) निकाला जाता है
62. Balance of trade becomes favourable when loans are :
- (A) Given
(B) Taken
(C) Paid
(D) Withdrawn

63. निम्नलिखित में से कौन-सी सार्वजनिक ऋण की विशेषता नहीं है ?
- (A) अनुकूल भुगतान सन्तुलन
(B) असमान वितरण में कमी
(C) आर्थिक विकास
(D) जनता पर भार
64. कर-भार पर विचार किसने दिये थे ?
- (A) एडम स्मिथ
(B) डाल्टन
(C) मसग्रेव
(D) एल्टन मेयो
65. बेस्टेबल ने कहा है कि कर प्रणाली होनी चाहिये :
- (A) उद्देश्यपूर्ण
(B) उत्पादक
(C) खर्चीली
(D) मितव्ययी
63. Which of these is not a merit of public debts ?
- (A) Favourable balance of payment
(B) Decrease in unequal distribution
(C) Economic growth
(D) Burden on public
64. Who gave views on incidence of taxation ?
- (A) Adam Smith
(B) Dalton
(C) Musgrave
(D) Elton Mayo
65. Bastable said that taxation should have :
- (A) Purposeful
(B) Productive
(C) Expensive
(D) Economical

66. सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है :
- (A) व्यक्तिगत बजट से
- (B) सरकारी बजट से
- (C) सार्वजनिक संस्थानों के बजट से
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
66. The need of public goods are fulfilled by :
- (A) Private budget
- (B) Government budget
- (C) Public institutions budget
- (D) None of the above
67. शून्य आधारित बजटिंग का सिद्धान्त विकसित किया गया था :
- (A) पीटर ए. फेयर द्वारा
- (B) पीटर ड्रकर द्वारा
- (C) कीन्स द्वारा
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
67. The principle of zero based budgeting was developed by :
- (A) Peter A. Phyer
- (B) Peter Drucker
- (C) Keynes
- (D) None of the above
68. भारत में हीनार्थ प्रबन्धन की विधि है :
- (A) केन्द्रीय बैंक से उधार लेना
- (B) केन्द्रीय बैंक से अपने नकद शेष को निकालना
- (C) नयी मुद्रा जारी करना
- (D) जनता से ऋण लेना
68. In India the method of deficit financing is :
- (A) Borrowing from Central Bank
- (B) Withdrawal of own cash balance from Central Bank
- (C) Issuing of new currency
- (D) Loan from public

69. हीनार्थ प्रबन्धन के दोष हैं :

- (A) कीमतों का बढ़ना
- (B) बचत पर बुरा प्रभाव
- (C) आय और धन के वितरण में असमानता
- (D) उपर्युक्त सभी

70. सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है :

- (A) आर्थिक विकास और नियोजन
- (B) कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- (C) आर्थिक स्थिरीकरण
- (D) उपर्युक्त सभी

71. प्रायः सार्वजनिक व्यय के द्वारा सन्तुष्टि की जाती है :

- (A) वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की
- (B) व्यक्तिगत आवश्यकताओं की
- (C) सामूहिक समूह की आवश्यकताओं की
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. Evils of deficit financing are :

- (A) Rise in prices
- (B) Adverse effects on savings
- (C) Unequal distribution of income and wealth
- (D) All of the above

70. The reason for increase in importance of public expenditure can be said to be :

- (A) Economic Development and Planning
- (B) Establishment of Welfare State
- (C) Economic Stability
- (D) All of the above

71. Generally public expenditure satisfies the requirements of :

- (A) Particular group
- (B) Individual
- (C) Collective group
- (D) None of the above

72. उस अर्थशास्त्री का नाम लिखिये जिसने सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया है :

- (A) शिराज
- (B) एमड स्मिथ
- (C) मार्शल
- (D) रिकार्डो

73. मन्दीकाल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिये जो व्यय किये जाते हैं, उसे कहा जाता है :

- (A) विनियोग
- (B) अनुदान
- (C) क्षतिपूरक व्यय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

74. निजी वित्त का एकमात्र लक्ष्य क्या है ?

- (A) जनकल्याण
- (B) लाभ प्राप्त करना
- (C) नुकसान करना
- (D) उपर्युक्त सभी

75. किसी वर्ग की आय जितनी कम हो, सार्वजनिक व्यय से होने वाले लाभ का अनुपात उतना ही अधिक मिलता है, इसे कहते हैं :

- (A) प्रतिगामी व्यय
- (B) आनुपातिक व्यय
- (C) प्रगतिशील व्यय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. Give the name of economist who has propounded the canon of public expenditure :

- (A) Shirraj
- (B) Adam Smith
- (C) Marshall
- (D) Ricardo

73. Under depression, the expenditure which is incurred to achieve full employment; is called :

- (A) Investment
- (B) Subsidies
- (C) Compensatory expenditure
- (D) None of the above

74. What is the only target of private finance ?

- (A) Public welfare
- (B) Earn profit
- (C) Causing loss
- (D) All of the above

75. The lower the income of group, the higher is the ratio of benefit, from public expenditure is called :

- (A) Regressive expenditure
- (B) Proportional expenditure
- (C) Progressive expenditure
- (D) None of the above

76. लोक वित्त निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करता है ?

- (A) जनकल्याण
- (B) स्व-कल्याण
- (C) लाभ
- (D) उपर्युक्त सभी

77. आधुनिक अर्थशास्त्री सरकारी उधार को लोक वित्त की कौन-सी कार्यवाही मानते हैं ?

- (A) पूर्ण
- (B) अपूर्ण
- (C) महत्वपूर्ण
- (D) संपूर्ण

78. आर्थिक अस्थिरता किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है ?

- (A) परतंत्र
- (B) स्वतंत्र
- (C) परतंत्र और स्वतंत्र
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

76. Public finance believes in which of the following ?

- (A) Public welfare
- (B) Self-welfare
- (C) Profit
- (D) All of the above

77. Modern economists treats Government borrowings, which of the following actions in public finance ?

- (A) Perfect
- (B) Imperfect
- (C) Important
- (D) Complete

78. Economic instability is main quality of which economy ?

- (A) Dependent
- (B) Independent
- (C) Dependent and independent
- (D) None of the above

79. उत्पादन में वृद्धि का अर्थ है :

- (A) उत्पादन शक्ति में ह्रास
- (B) उत्पादन शक्ति का समान होना
- (C) उत्पादन शक्ति में वृद्धि
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

80. करारोपण सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया ?

- (A) एडम स्मिथ
- (B) हैडले
- (C) अरस्तू
- (D) बेस्टेबल

81. सर्वप्रथम कराधान क्या होना चाहिये ?

- (A) अनुत्पादक
- (B) उत्पादक
- (C) उपभोग
- (D) उपर्युक्त सभी

79. What is the meaning of increase in production ?

- (A) Depreciation in production capacity
- (B) Equalisation of production power
- (C) Increase in production capacity
- (D) None of the above

80. Who coined the principle of Taxation ?

- (A) Adam Smith
- (B) Hadlay
- (C) Aristotle
- (D) Bastable

81. First of all what should be taxation ?

- (A) Unproductive
- (B) Productive
- (C) Consumption
- (D) All of the above

82. मंदी किस दशा को कहते हैं ?
- (A) जब कीमतें गिर रही होती हैं।
 (B) जब कीमतें बढ़ रही होती हैं।
 (C) जब कीमतें स्थिर होती हैं।
 (D) उपर्युक्त सभी
83. वह प्रणाली जो आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के करों का समावेश कर होती है, उसे क्या कहते हैं ?
- (A) दोषपूर्ण कर प्रणाली
 (B) समता कर प्रणाली
 (C) आदर्श कर प्रणाली
 (D) विकृत कर प्रणाली
84. विशिष्ट कर क्या है ?
- (A) आकार के अनुसार लगाया गया कर
 (B) मूल्य के आधार पर लगाया गया कर
 (C) एक व्यक्ति पर लगाया गया कर
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
85. जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं ?
- (A) अप्रत्यक्ष कर
 (B) प्रत्यक्ष कर
 (C) अधोगामी कर
 (D) प्रगतिशील कर
82. Which situation is called as depression ?
- (A) When prices are decreasing.
 (B) When prices are increasing.
 (C) When prices are stable.
 (D) All of the above
83. What is the system which includes all types of taxes according to need called ?
- (A) Defective Tax System
 (B) Equal Tax System
 (C) Ideal Tax System
 (D) Deform Tax System
84. What is specific tax ?
- (A) Tax according to size
 (B) Ad-valorem tax
 (C) Tax on one person
 (D) None of the above
85. When the impact and incidence of tax is placed on one person, then it is called :
- (A) Indirect tax
 (B) Direct tax
 (C) Degressive tax
 (D) Progressive tax

86. निम्नलिखित में से कौन न्याय सिद्धान्त की अधिकतम पूर्ति करता है ?
- (A) विक्रय कर
(B) आयकर
(C) उत्पादन कर
(D) मनोरंजन कर
86. Which of the following fulfils justice principle to a maximum ?
- (A) Sales Tax
(B) Income Tax
(C) Production Tax
(D) Entertainment Tax
87. आय के वितरण की असमानता को कम करते हैं :
- (A) आनुपातिक कर
(B) प्रतिगामी कर
(C) अधोगामी कर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
87. Inequality in distribution of income is reduced by :
- (A) Proportional tax
(B) Regressive tax
(C) Degressive tax
(D) None of the above
88. जिन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता है, उन्हें कहते हैं :
- (A) व्यक्तिगत ऋण
(B) आन्तरिक ऋण
(C) बाह्य ऋण
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
88. The debts which have no direct money burden are called :
- (A) Individual debt
(B) Internal debt
(C) External debt
(D) None of the above

89. ऋण शोधन कोष में जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करनी चाहिये :

- (A) ऋण से
- (B) करों से
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

90. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गयी है ?

- (A) अनुच्छेद 250 से 300 तक
- (B) अनुच्छेद 268 से 300 तक
- (C) अनुच्छेद 250 से 268 तक
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

91. भारत में आयात कर लगाने का उद्देश्य है :

- (A) आय प्राप्त करना
- (B) घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

89. The amount to be deposited in debt redemption fund should come :

- (A) from loan
- (B) from taxes
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

90. In which Article of the Indian constitution is the Centre and State financial relationship described ?

- (A) Article 250 to 300
- (B) Article 268 to 300
- (C) Article 250 to 268
- (D) None of the above

91. The objective of imposing import duty in India is :

- (A) To gain income
- (B) To protect domestic industries
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

92. कृषि, सम्पत्ति एवं आयकर लगाने की दृष्टि से जिस समिति की स्थापन की गयी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे ?
- (A) श्री भूतलिंगम
(B) श्री एल. के. झा
(C) प्रोफेसर के. एन. राज
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
92. Who was the chairman of the committee formed to impose agriculture, wealth and income tax ?
- (A) Shri Bhootlingama
(B) Shri L. K. Jha
(C) Prof. K. N. Raj
(D) None of the above
93. बजट अन्तिम रूप से स्वीकृत माना जाता है जब :
- (A) लोक सभा से पास हो
(B) राज्य सभा से पास हो
(C) राष्ट्रपति से स्वीकृति मिले
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
93. Budget is finally accepted when :
- (A) Passed in Lok Shaba
(B) Passed in Rajya Sabha
(C) Consent by President of India
(D) None of the above
94. सार्वजनिक वित्त सम्बन्धित है :
- (A) आगम से
(B) व्यय से
(C) सार्वजनिक संस्था के वित्तीय प्रशासन से
(D) उपर्युक्त सभी
94. Public finance is concerned with :
- (A) Revenue
(B) Expenditure
(C) Financial administration of public institution
(D) All of the above

95. बेस्टेबल के अनुसार कौन-सी विधि लोक वित्त के अध्ययन में सहायक है ?

- (A) आगमनात्मक
- (B) निगमनात्मक
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. सरकार जनता से ऋण ले सकती है :

- (A) बजट घाटे को पूरा करने के लिये
- (B) देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये
- (C) दोनों (A) एवं (B)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. सार्वजनिक ऋण का अध्ययन सम्बन्धित है :

- (A) सार्वजनिक ऋण के कारण और विधि से
- (B) ऋण की पुनर्भुगतान विधि से
- (C) सार्वजनिक व्यय के प्रभाव से
- (C) दोनों (A) एवं (B)

95. According to Bastable, which method is helpful in study of public finance ?

- (A) Inductive
- (B) Deductive
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

96. Government can borrow from the public :

- (A) To meet the deficit in the budget
- (B) To promote economic development of the country
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

97. Public debt deals with the study of :

- (A) Method and causes of public borrowings
- (B) Method of repayment of debt
- (C) Effect of public expenditure
- (C) Both (A) and (B)

98. किसने सार्वजनिक व्यय को हस्तान्तरणीय और अहस्तान्तरणीय व्यय में वर्गीकृत किया है ?

- (A) एडम स्मिथ
- (B) निकोलसन
- (C) पीगू
- (D) मिल्स

99. “घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का उपयोग बजट के घाटे द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि से किया जाता है, चाहे यह कमी आयगत हो या पूँजीगत खाते से हो।” किसने परिभाषित किया ?

- (A) भारतीय संविधान
- (B) भारतीय योजना आयोग
- (C) जे. के. मेहता
- (D) डाल्टन

100. प्राथमिक घाटे का आशय :

- (A) राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
- (B) राजकोषीय घाटा – राजस्व घाटा
- (C) राजकोषीय घाटा – विनियोग
- (D) राजकोषीय घाटा – राजस्व व्यय

98. Who has classified the public expenditure into transferable and non-transferable expenditure ?

- (A) Adam Smith
- (B) Nicholson
- (C) Pigou
- (D) Mills

99. “The term deficit financing is used to denote the direct addition to the gross national expenditure through budget deficit, whether the deficits are on revenue or capital account.” Who defined ?

- (A) Indian Constitution
- (B) Indian Planning Commission
- (C) J. K. Mehta
- (D) Dalton

100. Primary deficit means :

- (A) Fiscal deficit – Interest payment
- (B) Fiscal deficit – Revenue deficit
- (C) Fiscal deficit – Investment
- (D) Fiscal deficit – Revenue expenditure

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।